



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 607 राँची, सोमवार

18 जून, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

14 जून, 2018 ई०।

संख्या-10/विविध-1011/2018-3310-- राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड/वनांचल अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु निर्णय विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक 7 मई, 2012 (प्रति संलग्न) द्वारा लिया गया था ।

2. उक्त संकल्प के आलोक में आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड/वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रथम संपुष्ट सूची प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आन्दोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक 10 अगस्त, 2015 ।

3. विभागीय उक्त अधिसूचना द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों के आश्रितों का लाभ देने संबंधी प्रतिवेदन उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-4127, दिनांक 20 नवम्बर, 2017 द्वारा प्राप्त हुआ । उक्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा, संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारी की आश्रित पत्नी को आश्रित का लाभ देने पर स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

इस चिन्हित आंदोलनकारी की आश्रित पत्नी को उक्त संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं, उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्रदान की जायेगी ।

4. उपायुक्त, धनबाद अपने जिला से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित/चिन्हित झारखण्ड/वनांचल आन्दोलनकारी की आश्रित पत्नी की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर से सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन का उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा ।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक लाभुक को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके ।

6. यह दिनांक 1 अगस्त, 2015 अथवा आन्दोलनकारी की मृत्यु, जो बाद में हो, की तिथि से प्रभावी होगा ।

अनु.-यथोक्त ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

इग्नातियुस कुल्लू,
सरकार के अवर सचिव ।

झारखण्ड सरकार

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गृह विभाग के संकल्प संख्या-6/विविध-1013/2008-2108, दिनांक-07.05.2012 में निहित प्रावधानों के
अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

क्र०	नाम एवं पता	पूर्व का वर्गीकरण	आश्रित को लाभ देने का आधार	संकल्प सं.-2108 दिनांक- 07.05.12 के तहत वर्तमान का वर्गीकरण
1.	मसो. करुणा देवी पति- स्व० भागीरथ महतो ग्राम - डोमनपुर, पोस्ट - बगदाहा, थाना - राजगंज जिला - धनबाद	अधिसूचना सं.-4920 दि.-10.08.15 द्वारा निर्गत चिन्हित आन्दोलनकारियों की जिला सूची में क्रमांक/वर्गीकरण कण्डिका-3 (क) का सूची का क्रमांक-51	आयोग के प्रथम संपुष्ट सूची, जिला- धनबाद के क्रमांक-51 पर श्री भागीरथ महतो, पिता-यदु महतो का नाम कण्डिका-3 (क) के अंतर्गत अंकित है। दिनांक-19.07.2016 को, आन्दोलनकारी के मृत्यु उपरान्त उनकी आश्रित पत्नी द्वारा आश्रित का लाभ हेतु आवेदन उपायुक्त, धनबाद को प्रेषित किया गया। आश्रित प्रमाणपत्र स्वरूप मसो. करुणा देवी का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं स्व० भागीरथ महतो का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र।	कण्डिका-3 (क)
